



आयुक्त का कार्यालय, (अपीलस)

Office of the Commissioner,

केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद आयुक्तालय

Central GST, Appeal Commissionerate- Ahmedabad

जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद ३८००१५.

CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015

☎: 079-26305065

टेलिफैक्स : 079 - 26305136



क फाइल संख्या : File No : V2(ST)151 /North/Appeals/2018-19 / 10999 to 11003

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-002-APP-24-19-20

दिनांक Date : 23/05/2019 जारी करने की तारीख Date of Issue 04/06/2019

श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals)

ग Arising out of Order-in-Original No. MP/49/Ref/18-19 Dated 27/08/2018 Issued by Assistant Commissioner , Central GST , Div-II , Ahmedabad North.

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता
Name & Address of The Appellants

M/s Shree Adinath Bulk Carriers

इस अपील आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:-

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :-

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील:-
Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :-


वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती:-
Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :-

पश्चिम क्षेत्रीय पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016

The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Mental Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad - 380 016.

(ii) अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी.- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है, वहाँ के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी।

(ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompany ed by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated.



(iii) वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं एवं (2ए) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (2ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेश की प्रतियाँ (OIA) (उसमें से प्रमाणित प्रति होगी) और अपर आयुक्त, सहायक / उप आयुक्त अथवा अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने के निदेश देते हुए आदेश (OIO) की प्रति भेजनी होगी।

(iii) The appeal under sub section (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST-7 as prescribed under Rule 9 (2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise (Appeals)(OIA)(one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Addl. / Joint or Dy. /Asstt. Commissioner or Superintendent of Central Excise & Service Tax (OIO) to apply to the Appellate Tribunal.

2. यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975 की शर्तों पर अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन प्राधिकारी के आदेश की प्रति पर रु 6.50/- पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

2. One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudication authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1982 में चर्चित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

4. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "माँग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है -

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

⇒ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

4. For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

⇒ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

4(1) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

4(1) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute.

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा



ORDER-IN-APPEAL

M/s. Shree Adinath Bulk Carriers, Shahpur, Ahmedabad (henceforth, "appellant") has filed the present appeal against the Order-in-original No.MP/49/ref/18-19 dated 27.08.2018 henceforth, "impuged order") issued by the Assistant Commissioner, GST & Central excise, Division-II, Ahmedabad-North, (henceforth, "adjudicating authority").

2. The facts of the case, in brief, are that the a refund claim dated 01.02.2012 for Rs.24,59,006/- filed by the appellant on account of service tax paid in the name of old proprietorship firm was rejected vide Order In Original dated 02.07.2012 appeal against which was decided vide Order In Appeal No.AHM-SVTAX-000-APP-310-13-14 dated 16.01.2014 rejecting the appeal of the appellant. Under the Order No.A/11267/2017 dated 09.06.2017 preferred by the appellant, Hon'ble CESTAT, Ahmedabad remanded the matter back to the original adjudicating authority with the observation that - it needs to be verified whether the service tax against the same invoices had been paid twice; whether Shri Narendra Jain, proprietor, discharged the service tax with interest subsequently. In the event service tax is paid on the same set of invoices for the services provided, the appellant would be eligible to the refund of service tax. Acting on the directions under order said 09.06.2017 of CESTAT, the impugned order has been passed wherein refund claim of Rs.17,23,212/- has been sanctioned and remaining Rs.7,35,794/- has been rejected for the reasons that the appellant failed in producing sales invoices for the said amount.

3. Being aggrieved with the impugned order the appellant preferred this appeal contesting inter alia that non producing of invoices with the adjudicating authority was a procedural lapse, that they were not given opportunity of being heard and time of submitting documents, that they are having all such documentary evidences and are ready to submit the same, that in order to verify the documentary evidences, they requested to remand the case back to the adjudicating authority.

4. In the Personal hearing held on 08.05.2019 Shri Vipul Khandhar, CA, reiterated the grounds of appeal and requested that the case be remanded back.



5. I have carefully gone through the facts of the case and submissions made in the appeal memorandum as well as during personal hearing. I find that out of total claim of Rs.24,59,006/- made by the appellant, an amount of Rs.7,35,794/- has been rejected by the adjudicating authority under the impugned order for the reasons that the appellant failed in producing sales invoices for the same. I find that the case was remanded to the adjudicating authority to verify whether the amount of tax has been paid twice against the same set of invoices. In order to follow the direction of Hon'ble CESTAT, verification of relevant invoices, challans etc. documents are mandatory for the adjudicating authority and as such I do not agree with argument of the appellant wherein it is stated that non-producing of invoices with the adjudicating authority was a procedural lapse. The approach of the appellant with the lower authority is also not as compliant as it looks at this appellate stage. Even after such prolonged personal hearing dates i.e. from 23.04.2018 to last 27.06.2018, wherein they didn't appeared and lastly approached and attended on 29.06.2018, wherein also no such invoices were produced. I observe that this in nothing but delaying tactics on the part of the appellant only and not supporting to the mandated time bound refund matters. It is indeed an obligation on the appellant to produce the invoices, evidence in support of their claim, failure of which may result in rejection of refund by the competent authority. Therefore, I observe that by not providing the said invoices to the competent authority for verification, the appellant has delayed the matter. However, in the interest of justice it would be proper to give last opportunity to the appellant to produce said invoices / evidence and hence I reemit the matter back to original adjudicating authority for verification of the invoices/evidence as per the directions of Hon'ble CESTAT's Order dated 09.06.2017 following the principle of natural justice.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

उमा शंकर

(उमा शंकर)

प्रधान आयुक्त (अपील्स)

Date:

Attested

(D.A.Parmar)
Superintendent, Central Tax (Appeals),
Ahmedabad.



By R.P.A.D.

To,

M/s. Shree Adinath Bulk Carriers,
1633-Parbadi ni Pole, Halim ni Khadki, Shahpur,
Ahmedabad, GPO, Ahmedabad.

Copy to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Ahmedabad Zone.
2. The Commissioner of Central Tax, Ahmedabad-North.
3. The Additional Commissioner, Central Tax (System), Ahmedabad-North
4. The Asstt./Deputy Commissioner, Central Tax, Division-II, Ahd-North.
- ✓ 5. Guard File
6. P.A.



